

## प्रेस नोट दिनांक 20.07.2021

नशा मुक्ति अभियान के तहत थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 01 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 102 ग्राम स्मैक (अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड

रुपये) बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में नशा कारोबारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.07.2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर टिकरौल भट्टे के पास से अभि0 1-उस्मान पुत्र हाजी नासिर निवासी ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को 01 किलो 102 ग्राम स्मैक (अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड रुपये), एक अदद ट्रैक्टर महिन्द्रा 475 DI रंग लाल बिना नंबर सहित समय 19:20 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है, जबकि गिरफ्तार अभियुक्त का एक अन्य साथी जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने स्मैक बेचकर मोटा मुनाफा कमाना स्वीकार किया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 216/2021 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-उस्मान पुत्र हाजी नासिर निवासी ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-01 किलो 102 ग्राम स्मैक (अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड रुपये)

2-01 अदद ट्रैक्टर महिन्द्रा 475 DI रंग लाल बिना नंबर।

अभि0 उस्मान का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 53/2020 धारा 376-डी/120-बी/506 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 216/2021 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1-थानाध्यक्ष श्री सोवीर नागर, थाना नानौता, स०पुर।

2-उ0नि0 श्री आजाद सिंह, थाना नानौता, स०पुर।

3-उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार, थाना नानौता, स०पुर।

4-है0का0 592 विजय कुमार, थाना नानौता, स०पुर।

5-है0का0 82 संजीव कुमार, थाना नानौता, स०पुर।

6-हो0गा0 2077 सतीश कुमार, थाना नानौता, स०पुर।

## प्रेस नोट दिनांक 20-07-2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ताश के पत्तों से बाजी लगाकर सट्टा खेलते समय 05 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 19-07-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ग्राम बीबीपुर से अभि० 1-बिट्टू पुत्र कश्मीरा, 2-प्रवेश पुत्र राजेश, 3-आकाश पुत्र कर्मवीर, 4-आलोक पुत्र अरविन्द व 5-राहुल पुत्र प्रभु निवासी ग्राम बीबीपुर थाना देवबन्द, सहारनपुर को 52 पत्ते ताश मय 2500/रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 450/21 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 19-07-2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा ग्राम बिडवी से अभि० दिनेश पुत्र कबाडी निवासी ग्राम बिडवी थाना नकुड, सहारनपुर को 20 लीटर शराब खाम मय शराब बनाने के उपकरण व 50 लीटर लहन सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०सं० 285/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 19-07-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा आन्नद मार्ग से कादरपुर मार्ग कस्बा बेहट से अभि० विनय पुत्र प्रेमचन्द निवासी मौहल्ला माजरी कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 357/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 19-07-2021 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा गांधी पार्क तिराहा से अभि० एजाज उर्फ गंजा पुत्र आबिद निवासी रसूलपुर थाना को०देहात, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 327/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीडिया सेल  
जनपद सहारनपुर।